

झारखण्ड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल, नेपाल हाउस कैम्पस, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड-834002

पत्रांक:- DTESec2/Misc 01-2020-2/2021/HTESD-358 / राँची, दिनांक:- 15/04/2026  
प्रेषक,

प्रो० (डॉ०) रंजीत कुमार सिंह,  
संयुक्त निदेशक।

सेवा में,

निदेशक/प्रभारी निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,  
सभी राजकीय/पी०पी०पी० मोड/निजी अभियंत्रण महाविद्यालय।

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,  
सभी राजकीय/पी०पी०पी० मोड/निजी पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय:- राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान से प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, समविश्वविद्यालय (विशिष्ट श्रेणी), हटिया, राँची  
का पत्रांक- NIAMT/ACAD/ADC/30/26-27/387 दिनांक-25.03.2026


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में कहना है राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, समविश्वविद्यालय (विशिष्ट श्रेणी), हटिया, राँची द्वारा वर्ष 2026 के लिए फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी में 54वाँ एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स (ADC) हेतु B.E., B.Tech, डिप्लोमा एवं B.Sc. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने हेतु पर्चा/विज्ञापन की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

अतएव राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, समविश्वविद्यालय (विशिष्ट श्रेणी), हटिया, राँची से प्राप्त पत्र एवं सानुलग्नक की प्रति आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
{प्रो० (डॉ०) रंजीत कुमार सिंह}  
संयुक्त निदेशक।



स्थापित ESTD. 1966

# राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान

समविश्वविद्यालय (विशिष्ट श्रेणी)

हटिया, राँची - 834 003, झारखण्ड

**NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY**

Deemed to be University (Distinct Category)

Hatia, Ranchi - 834 003, Jharkhand

सं. No. - NIAMT/ACAD/ADC/30/26-27/387

दिनांक Date - 25/03/2026..

To

Dr. Raj Shekhar Prasad

Assistant Director

Directorate of Technical Education

Department of Higher and Technical Education

Govt. of Jharkhand

SO  
RHS  
7-4-26

**Subject: Circulation of Flyer/ Advertisement of Advanced Diploma Course in NIAMT.**

Madam/Sir,

It is my pleasure to inform that National Institute of Advanced Manufacturing Technology (NIAMT), Hatia, Ranchi is inviting applications from B.E., B.Tech, Diploma and B.Sc. graduates for admission in 54<sup>th</sup> Advanced Diploma Course (ADC) in Foundry and Forge Technology for the year 2026. The ADC in NIAMT is a 18-month duration course with monthly stipend of Rs. 3000/- and has a 100% placement record. A short flyer/advertisement is enclosed for circulation in all Diploma and Degree (B.Sc./B.Tech.) University/Institutes/colleges under the Department of Technical Education, Govt. of Jharkhand. The detailed advertisement is available on the Institute's website i.e www.niamt.ac.in, to guide students in applying for the course.

2. Your cooperation in circulation of the flyer/ advertisement shall be highly appreciated.

Encl. - As above.

Thanks & Regards,

Prof. N.K Singh

Dean (Academic)

373  
08/04/26

Formerly NIFFT

website - <https://www.niamt.ac.in>

पूर्व में निफ्ट

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान

A Centrally Funded Technical Institute under Ministry of Education, Govt. of India

फोन Phone - (0651) 229 0859 (निदेशक कार्यालय Director Office) / 229 0016 (कुलसचिव कार्यालय Registrar Office)

# NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY

(Deemed to be University, under Distinct Category)

HATIA, RANCHI -834003

Formerly, National Institute of Foundry and Forge Technology (NIFFT)  
(A Centrally Funded Technical Institute under Ministry of Education, Govt. of India)



## Advanced Diploma Course (ADC) in Foundry Technology & Advanced Diploma Course (ADC) in Forge Technology

**Eligibility:** B.E. / B. Tech. / Diploma in Mechanical / Production / Manufacturing / Automobile / Industrial / Polymer / Metallurgical / Electrical / Electronics / Instrumentation / Computer / Ceramics / Chemical Engineering or those having B. Sc Degree with Physics / Chemistry / Mathematics / Computer Application / Information Technology.

\* Selection through Written Test /Interview

**How to Apply:** For details of eligibility criteria, scholarship, application form and selection process, visit institute website [www.niamt.ac.in](http://www.niamt.ac.in)

**ADMISSIONS OPEN  
for  
54<sup>th</sup> ADC Batch**  
Foundry Technology – 58 Seats  
Forge Technology – 57 Seats

**Examination Centre:**  
Ranchi, Kolkata \*, Delhi \*,  
Hyderabad\*, Ahemdabad\*,  
Lucknow\*, Chennai\*, Raipur\*,  
Pune \*,Guwahati\*

\* Subjected to no. of  
applicants

### Facilities:

- Well established Foundry and Forge Simulation Lab
- Well equipped Non-Destructive Testing Lab
- Industry Oriented Laboratories
- Advanced Digital Lecture Hall Complex
- Internships in reputed Foundry and Forge Industries
- Hostels with mess and free Internet and Medical Facility
- Well Stocked Library
- ATM, BANK, Post office inside the campus
- Sports, Gymkhana and Computer Centre Facility

"Join a legacy of excellence! Be a part of NIAMT and shape your future in the manufacturing industry with top recruiters and state-of-the-art facilities."

### Important dates:

Issue of Application Form (on Institute Website)	: 01-03-2026
The last date for sending the signed hard copy of application form along with documents	: 30-04-2026
Exam Date (Tentatively)- Sunday	: 31-05-2026

Stipend per Semester - ₹18000/-  
Fees for First Semester - ₹17,100/- \*  
Fees for Second and Third Semester - ₹14,100/-\* per semester  
\*For detailed Fees Structure , visit [www.niamt.ac.in](http://www.niamt.ac.in)



For more information, contact us: Email: [academic@niamt.ac.in](mailto:academic@niamt.ac.in), Website: [www.niamt.ac.in](http://www.niamt.ac.in) , Phone-6512912208, 8105476009 (AR-Academic), 8298042604 (Course-Coordinator)

Recruiters



& many more